

MP BOARD CLASS 11 PAPER 2015
पुस्तपालन एवं लेखाकर्म (बहीखाता) : कक्षा XI

प्रश्न 1. सही विकल्प चुनकर लिखिए—

1×5=5

- (a) चालू व्यवसाय की मान्यता से आशय है—
 (i) व्यवसाय का बन्द हो जाना (ii) व्यवसाय का प्रारम्भ करना
 (iii) व्यवसाय का चलते रहना (iv) उक्त में से कोई नहीं।
- (b) आहरण को घटाया जाता है—
 (i) विक्रय में से (ii) क्रय में से
 (iii) बाह्य वापसी में से (iv) पूँजी में से।
- (c) आय-व्यय खाते में व्यवहार को लिखा जाता है—
 (i) केवल आगम प्रकृति के (ii) पूँजी प्रकृति के
 (iii) दोनों प्रकृति के (iv) उक्त में से कोई नहीं।
- (d) सामान्यतः अपूर्ण लेखे रखे जाते हैं—
 (i) व्यापारी द्वारा (ii) समिति द्वारा
 (iii) कम्पनी द्वारा (iv) सरकार द्वारा।
- (e) बही का वह भाग जिसमें राशि लिखी जाती है, कहलाता है—
 (i) सिरा (ii) पेटा
 (iii) सिरा व पेटा (iv) इनमें कोई नहीं।

उत्तर—(a) (iii), (b) (iv), (c) (i), (d) (i), (e) (i).

प्रश्न 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

1 × 5 = 5

- (अ) से पूँजी घटती है।
 (ब) अनुपार्जित आय को चिह्न के पक्ष में दिखाया जाता है।
 (स) सम्पत्ति का दायित्व पर आधिक्य दर्शाता है।
 (द) वर्ष के अन्त में पूँजी की वृद्धि दर्शाता है।
 (इ) बही का योग नहीं लगाया जाता है।

उत्तर—(अ) आहरण/हानि, (ब) दायित्व, (स) पूँजी, (द) लाभ, (इ) बन्द।

प्रश्न 3. निम्नलिखित का सत्य/असत्य में उत्तर दीजिए—

1 × 5 = 5

- (अ) रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता है।
 (ब) खाताबही में 'व्याख्या' की आवश्यकता नहीं होती है।
 (स) तलपट खाताबही का एक भाग है।
 (द) आहरण पर ब्याज स्वामी की हानि है।
 (इ) प्रमाणकों को लिखित होना आवश्यक नहीं है।

उत्तर—(अ) सत्य, (ब) सत्य, (स) असत्य, (द) सत्य, (इ) असत्य।

प्रश्न 4. निम्नलिखित का एक शब्द/वाक्य में उत्तर दीजिए—

1 × 5 = 5

- (अ) उदरत खाता किस प्रवृत्ति का खाता है ?
 (ब) तलपट बनाने की कितनी विधियाँ हैं ?
 (स) क्या तलपट खातों की शुद्धता का अन्तिम प्रमाण है ?

(द) मार्गस्थ माल को चिट्ठे के किस ओर दर्शाया जाता है ?

(इ) गैर-व्यापारिक संस्थाओं की सबसे मुख्य आय है ।

उत्तर—(अ) अस्थायी/व्यक्तिगत, (ब) तीन, (स) नहीं, (द) सम्पत्ति पक्ष,
(इ) चन्दा ।

प्रश्न 5. निम्नलिखित की सही जोड़ियाँ बनाइए—

1 × 5 = 5

'अ'	'ब'
(अ) विद्यालय/महाविद्यालय	(i) पूँजी
(ब) स्थिति विवरण	(ii) ड्योढ़ा करना
(स) प्रारम्भिक पूँजी	(iii) रोकड़ बही
(द) खातों को बन्द करना	(iv) बीजक बही
(इ) जमा नकल बही	(v) गैर-व्यापारिक संस्थाएँ
	(vi) प्रारम्भिक स्थिति विवरण

उत्तर—(अ) → (v), (ब) → (i), (स) → (iii), (द) → (ii), (इ) → (iv) ।

प्रश्न 6. वित्तीय विवरण से क्या आशय है ?

2

अथवा

अन्तिम रहितये से क्या आशय है ?

प्रश्न 7. गैर-व्यापारिक संस्थाओं से क्या आशय है ?

2

अथवा

आय-व्यय खाते से क्या आशय है ?

प्रश्न 8. प्राप्ति एवं भुगतान खाते से क्या आशय है ?

2

अथवा

रोकड़ पद्धति में रखी जाने वाली किन्हीं दो पुस्तकों का वर्णन कीजिए ।

प्रश्न 9. विशिष्ट दान कोष से क्या आशय है ?

2

अथवा

पूँजी कोष से क्या आशय है ?

प्रश्न 10. इकहरा लेखा प्रणाली से क्या आशय है ?

2

अथवा

इकहरा लेखा प्रणाली के कोई दो दोष या सीमाएँ लिखिए ।

प्रश्न 11. लेखांकन के उद्देश्य लिखिए ।

4

अथवा

लेखांकन की सरकार के लिए क्या उपयोगिता है ?

प्रश्न 12. लेखांकन के सिद्धान्तों की सीमाएँ लिखिए ।

4

अथवा

लेखांकन सिद्धान्तों की प्रकृति का वर्णन कीजिए ।

प्रश्न 13. प्रमाणक के प्रकारों को समझाइए ।

4

अथवा

निम्न व्यवहारों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए—

रु.

(1) नकुल नै रोकड़ से व्यापार आरम्भ किया

90,000

(2) नकद माल खरीदा

30,000

(3) रमन से उधार माल खरीदा

15,000

प्रश्न 14. नकल बही रखने के चार उद्देश्य लिखिए ।

4

अथवा

निम्नलिखित व्यवहारों को विवेक एण्ड ब्रदर्स की क्रय वापसी बही में लिखिए—

2014

सितम्बर 8 मैसर्स राम ब्रदर्स को माल वापस किया—

4 शर्ट 50 रु. प्रति पीस की दर से

व्यापारिक बट्टा @ 10% (कारण पीस हल्का होने से)

सितम्बर 25 मैसर्स अतुल एण्ड कम्पनी को माल वापस किया—

5 पेन्ट पीस 160 रु. प्रति पीस की दर से

व्यापारिक बट्टा @ 10% (कारण अधिक पीस भेजने से)

प्रश्न 15. खाताबही का महत्व लिखिए ।

4

अथवा

निम्नलिखित क्रय पुस्तक से खाताबही में खतौनी कीजिए—

Purchases Book

Date	Particulars	No.	L.F.	Amount	Net Amount
2013	Shri Mohit			2,500	
Sept. 1	Less : Trade discount @ 10%			- 250	2,250
Sept. 5	Shri Rohit				800
Sept. 18	Shri Mohan			1,200	
	Less : Trade discount @ 5%			- 60	1,140
	Total Purchases				4,130

प्रश्न 16. चिट्ठा और तलपट में चार अन्तर बताइए ।

4

अथवा

निम्न समकों से संचालन लाभ तथा शुद्ध लाभ की गणना कीजिए—

रु.

शुद्ध बिक्री	5,00,000
बिक्री व्यय	30,000
सकल लाभ	1,50,000
विनियोग से आय	2,000
कार्यालय एवं प्रशासन व्यय	40,000
अग्नि से हानि	6,000

प्रश्न 17. इकहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएँ लिखिए ।

4

अथवा

इकहरा लेखा प्रणाली के लाभ या उपयोग लिखिए ।

प्रश्न 18. माल खातों के खातों का वर्णन कीजिए।

5

अथवा

निम्नांकित के लिए हर्षवर्धन की पुस्तकों में जर्नल की प्रविष्टियाँ कीजिए—

- (i) 500 रु. के एक ऋणी से एक रुपये में 75 पैसे की दर से राशि प्राप्त हुई।
- (ii) 200 रु. का माल आग में जलकर नष्ट हो गया।
- (iii) 15 रु. की कटौती दिनेश को दी।
- (iv) मनोज से 75 रु. कमीशन प्राप्त हुआ।
- (v) बैंक ने बैंक व्यय के 30 रु. लगाये।

प्रश्न 19. बैंक समाधान विवरण का महत्व लिखिए।

5

अथवा

रोकड़ पुस्तक के बैंक शेष और पास बुक के शेष में अन्तर होने के कोई पाँच कारण लिखिए।

प्रश्न 20. विनिमय विपत्र के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

5

अथवा

भरत ने अजय को 5,000 रु. का माल बेचा और उस पर तीन माह की अवधि का उस रकम के लिए एक विपत्र लिखा। उपस्थिति पर अजय ने प्रलेख को स्वीकार कर लिया। यदि विपत्र अनादृत हो जाए तो बताइए दोनों की पुस्तकों में निम्नलिखित दशाओं में क्या प्रविष्टियाँ होंगी—

- (i) यदि भरत देय तिथि तक विपत्र अपने पास रखे हो।
- (ii) यदि वह बैंक से उसे भुना ले और बैंक को आलोकन व्यय 100 रु. दिये गये हों।
- (iii) यदि वह विजय के पक्ष में उसका बेचान कर दे तो वह 100 रु. आलोकन व्यय के चुकाता हो।
- (iv) यदि उसने संग्रह के लिए विपत्र बैंक में भेज दिया हो।

प्रश्न 21. मूल्य हास आयोजन के उद्देश्य लिखिए।

5

अथवा

एक मशीन 60,000 रु. में 1 जनवरी, 2012 को क्रय की गई थी। इसकी कीमत तीन वर्ष बाद क्या होगी, यदि इस पर स्थायी प्रभाग पद्धति से हास काटा जाये और हास की दर 10% वार्षिक हो ? मशीन खाता बनाइए।

प्रश्न 22. आयगत संचय एवं पूँजीगत संचय में अन्तर लिखिए।

5

अथवा

संचय के विभिन्न प्रकारों को समझाइए।

प्रश्न 23. तलपट के उद्देश्य लिखिए।

6

अथवा

31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मै. जीवनराम एण्ड सन्स के खातों में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई थीं—

- (i) पुरानी मशीनरी की बिक्री की रकम 2,080 रु. विक्रय खाते में खता दी गई थी।
- (ii) 800 रु. का अनादृत विपत्र बैंक में लौटा दिया, जो बैंक खाते में जमा और प्राप्य विपत्र खाते में नाम कर दिया गया।
- (iii) 460 रु. यन्त्र मरम्मत की राशि यन्त्र एवं मशीनरी खाते में लिख दी गई थी।

(iv) 230 रु. से रमेश के खाते को नाम करने के स्थान पर सुरेश का खाता नाम कर दिया गया था।

(v) त्रिलोकचन्द्र द्वारा 150 रु. का माल लौटाया गया था, जो स्टॉक में रख दिया गया, परन्तु प्रुसिर्को में लेखा नहीं किया गया था।

अर्युक्त अशुद्धियों के संशोधन के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए।

प्रश्न 24. भारतीय बहीखाता प्रणाली की विशेषताएँ लिखिए।

6

अथवा

निम्न व्यवहार श्री विवेककुमार महेशचन्द्र के 24 मार्च, 2012, मिति चैत्र सुदी 8, संवत् 2067 के हैं। कच्ची रोकड़ बही बनाइए—

(i) उन्होंने 7,600 रु. लगाकर व्यापार प्रारम्भ किया।

(ii) श्री गोपाल से माल खरीदा व धनादेश दिया 950 रु.।

(iii) श्री हरी को माल बेचा एवं धनादेश मिला 1,100 रु.।

(iv) व्यक्तिगत उपयोग हेतु माल आहरित किया 250 रु.।

(v) श्री अश्विनी को माल बेचा 650 रु.।

(vi) कार्यालय व्यय चुकाया 150 रु.।